


प्रमाणित किया जाता है कि इस भाषी पुस्तक में मशीन के द्वारा अंकित कुल 100 एक सौ पन्ने हैं यह भाषी पुस्तक श्री.....रामेश्वर... सहायक अभियन्ता ग्रामीण कार्य विभाग कार्य अवर प्रमण्डल.....जैदल....को निर्भर किया जाता है।

  
02.03.21  
कर्मपालक अभियन्ता  
ग्रामीण कार्य विभाग  
कार्य प्रमण्डल, मधुबनी  
03/03/21

Sch. XLV - Form No. 134

DIVISION

SUB-DIVISION

## Measurement Book

No. 2493

Name of Officer \_\_\_\_\_

Date of first entry \_\_\_\_\_

Date of last entry \_\_\_\_\_

Name of Work—  
Situation of Work—  
Agency by which work is executed—  
Date of Measurement—  
No. and date of agreement

(These four lines should be repeated at the commencement  
of the measurement relating to each work)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
					18 km N.E B'wll
<u>Name of works:-</u> <del>Concreting C.N. road</del>					
<del>from NH 105 Basavalli Chawki</del>					
<del>to Mandal T-2 under</del>					
<del>M.C.S.Y. B.E)</del>					
<u>Name of Agent:-</u> Soni Chandra Sekhar					
<del>Mahita</del>					
<del>Chanchi Chawki, Mahabubnagar</del>					

Agg-No - 164 § BD / 2020-21

Date of Start - 24/09/2020

Date of Completion - 23/09/2021 (As per Agent)

## work done

### 2) Point fixing worthy Benchmark

Bill

90 No -

2) Chayf G. Grubbs Wood Land

$$10 \times 300. \text{m}^2 \times 3.5 \text{ day} = 10500. \text{m}^3$$

$$10 \times 30.00 \times 3.18 \text{ days} \rightarrow 1050.00$$

$$10 \times 30.4 \times 3.150(\text{kg}) = 1050.0 \text{ N}$$

~~7 x 30 = 210 + 50 (cm) = 735 cm~~

10 11.00 x 3.50 day = 38.50

3923,50 m<sup>2</sup>

Continuation of  $\Rightarrow 0.39 \text{ Hart}$

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
$D_{try} = 103.20 \text{ m}^2 \text{ wider } (57)$					
$(@ \text{ Rs. } 101.40/\text{m}^2) = \text{ Rs. } 10464.00$					
					/
					Total = Rs. 7866279.00
Add 12% GST					GST = Rs. 943953.00
Add 1% LC					(H) = Rs. 78663.00
					/
					Total = Rs. 888895.00

Add S. fee

(i) ~~Rs. 100/-~~

(ii) cost of labour

$3595.44 \text{ m}^3$

$D_{try} = 5522.62 \text{ m}^3$

$(@ \text{ Rs. } 34.81/10\text{m}^3) = \text{ Rs. } 19516.00$

(iii) Cost of GSB(m2)

$D_{try} = 927.61 \text{ m}^2$

$(@ \text{ Rs. } 55.16/10\text{m}^2) = \text{ Rs. } 51868.00$

(iv) PIV, brick =  $193 \text{ m}^2$

$D_{try} = 323.10 \text{ m}^3$

$(@ \text{ Rs. } 714.20/\text{ton}^2) = \text{ Rs. } 22079.00$

(v) PIV & laying miss types

$D_{try} = 4307.90 \text{ m}^2$

$(@ \text{ Rs. } 14.13/10\text{m}^2) = \text{ Rs. } 6087.00$

Total = Rs. 93550.00  
Continuation

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(v) PIV PCC M15 grade					
Qty = 22.97 m <sup>3</sup> . ridge					
Cft. 520.26/10m <sup>3</sup> f. 1195.00					
(vi) PIV PCC M20 grade					
Qty = 183.47 m <sup>3</sup>					
Cft. 595.16/10m <sup>3</sup> f. 10919.00					
(vii) PIV & C40 If ab PCC					
cable duct					
do do					
Qty = 20.00 m					
Cft. 63.29/10m f. 127.00					
Total = Rs. 105791.00					
Add Marked (A) = Rs. 8888,895.00					
Total = Rs. 8994686.00					
less 11.11% below as per					
Agreement (C) f. 999310.00					
Total f. 7995376.00					
less Previous payment (E) f. 6073783.00					
Total = Rs. 19,21,593.00					
					By 18/11/23 B

## Continuation